


विशेष रिपोर्ट


एनर्जी

(मई 2024)





स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

अप्रैल में, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीन महीने से चली आ रही बढ़त पर रोक लग गई और अमेरिका में कच्चे तेल के बढ़ते उत्पादन, मध्य पूर्व युद्धविराम समझौते की संभावना और निकट अवधि में अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें धूमिल होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई। ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन जनवरी में 12.58 मिलियन बैरल/दिन से बढ़कर फरवरी में 13.15 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया, जो अक्टूबर 2021 के बाद से इसकी सबसे बड़ी मासिक वृद्धि है। इस बीच, इसी अवधि में निर्यात 4.05 मिलियन बैरल/दिन से बढ़कर 4.66 मिलियन बैरल/दिन हो गया। इजरायल और हमास के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए मिन्न के नेतृत्व में नए सिरे से प्रयास किए जाने के बाद हाल के दिनों में उम्मीदें बढ़ी हैं कि दोनों के बीच युद्धविराम समझौता हो सकता है। बाजार को संतुलित करते हुए, रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का उत्पादन अप्रैल में गिर गया है, जो व्यापक ओपेक + के साथ सहमत कुछ सदस्यों द्वारा चल रही स्वैच्छिक आपूर्ति कटौती के मुकाबले ईरान, इराक और नाइजीरिया से कम निर्यात को दर्शाता है।

आउटलुक

- तेल बाजार की वर्तमान स्थिति भू-राजनीतिक कारकों, प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादन निर्णयों और व्यापक आर्थिक नीतियों की परस्पर जटिल क्रिया को दर्शाती है। जैसे-जैसे ये तत्व विकसित होते रहेंगे, तेल वायदा की कीमतों में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है।
- फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों को स्थिर रखने के निर्णय के बाद निवेशक चिंतित थे कि लंबे समय तक उधार लेने की लागत बढ़ने से दुनिया के अग्रणी तेल उपभोक्ता अमेरिका में आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।
- इजरायल-हमास युद्ध के कारण भूराजनीतिक जोखिम कम हो सकता है क्योंकि दोनों पक्ष अस्थायी युद्धविराम पर विचार कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों

के साथ बातचीत कर रहे हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी कमजोर श्रम बाजार और चीन में आर्थिक चुनौतियों के कारण तेल की मांग स्थिर रहने की उम्मीद है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग के विस्तार की भरपाई के लिए अमेरिका में उत्पादन वृद्धि पर्याप्त प्रतीत हो रही है।
- विश्लेषकों के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की मांग में वृद्धि आधी हो सकती है, जिससे दूसरी छमाही के रिफाइनरी मार्जिन में कमी आएगी, जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारों की ओर बदलाव और पिछले साल के उछाल के बाद कोविड-19 के बाद खपत में सामान्य वापसी से प्रेरित है।
- कंसल्टेंसी वुड मैकेंजी का कहना है कि 2020 के बाद से सबसे कम वृद्धि के साथ मांग 340,000 बैरल प्रति दिन बढ़ने की संभावना है, जो इस साल 26.5 मिलियन बैरल प्रति दिन हो सकती है, जो पिछले साल 700,000 बैरल प्रति दिन की वृद्धि से कम है।
- सऊदी अरब ने जून में एशिया, उत्तर-पश्चिमी यूरोप और भूमध्य सागर में बेचे जाने वाले अपने कच्चे तेल के लिए आधिकारिक बिक्री मूल्य को बढ़ा दिया, जो इस गर्मी में मजबूत मांग की उम्मीद का संकेत है।
- पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों का संगठन, जिसे ओपेक+ के नाम से जाना जाता है, संभावित रूप से जून के अंत की समय सीमा से परे उत्पादन में प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल की कटौती को बनाए रख सकता है।
- यह वर्तमान में प्रति दिन 5.86 मिलियन बैरल उत्पादन में कटौती कर रहा है, जो वैश्विक मांग के लगभग 5.7% के बराबर है, लेकिन कुछ सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल से अधिक की स्वैच्छिक कटौती जून के अंत में समाप्त हो रही है।
- संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय तेल कंपनी, एडनॉक ने अपनी उत्पादन क्षमता 200,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाकर 4.85 मिलियन बैरल/दिन कर दी है, जिससे अप्रैल में 3.1 मिलियन बैरल/दिन से थोड़ा अधिक उत्पादन करने के बाद, कंपनी के पास 1.7 मिलियन बैरल/दिन से अधिक की अतिरिक्त क्षमता रह गई है।

एमसीएक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

नाइमेक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

मई 2024 में, कच्चे तेल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 6200-7050 के बड़े दायरे में कारोबार कर सकती हैं। उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नेचुरल गैस

नेचुरल गैस की कीमतों में पांच महीने से जारी गिरावट अप्रैल के महीने में रुक गई और फ्रीपोर्ट एलएनजी को निर्यात शुरू होने, पर्मियन बेसिन में आपूर्ति में रुकावट, और अमेरिका के निचले 48 राज्यों में सामान्य से अधिक गर्म मौसम का अनुमान के कारण मांग में बढ़ोतरी होने से नाइमेक्स और एमसीएक्स दोनों पर कीमतों में 12% से अधिक की उछाल दर्ज की गई। फरवरी और मार्च में कीमतें 3-1/2 साल के निचले स्तर पर गिरने के बाद रूज और चेसापीक एनर्जी सहित कई ऊर्जा कंपनियों द्वारा गैस कुओं को पूरा करने में देरी और अन्य ड्रिलिंग गतिविधियों में कटौती के बाद 2024 में अब तक अमेरिकी गैस उत्पादन लगभग 9% कम हो गया है। लेकिन गैस भंडार वर्तमान में वर्ष के इस समय के सामान्य स्तर से लगभग 34% अधिक है।

आउटलुक

- नेचुरल गैस बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है क्योंकि यह मौसम की स्थिति से प्रभावित रहेगा। गर्म मौसम के पूर्वानुमान, पर्याप्त भंडारण स्तर और उत्पादकों द्वारा सतर्क रुख के कारण कीमतों पर निरंतर बढ़ते दबाव की ओर इशारा करता है।
- टेक्सास में फ्रीपोर्ट एलएनजी की वापसी के साथ लिक्वीफाईड गैस निर्यात संयंत्रों में प्रवाहित होने वाली गैस की मात्रा में वृद्धि हुई है और अगले सप्ताह, विशेष रूप से टेक्सास में, अधिक गर्म मौसम के पूर्वानुमान के कारण बिजली जनरेटर्स को एयर कंडीशनिंग की मांग को पूरा करने के लिए अधिक गैस जलाने की आवश्यकता होगी।
- वित्तीय फर्म एलएसईजी ने कहा कि निचले 48 अमेरिकी राज्यों में गैस उत्पादन मई में अब तक औसतन 96.3 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन तक कम हो गया है, जो अप्रैल में 98.1 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन से कम है। इसकी तुलना में दिसंबर 2023 में 105.5 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन का रिकॉर्ड मासिक उत्पादन हुआ था।
- एलएसईजी का अनुमान है कि निर्यात सहित निचले 48 अमेरिकी राज्यों में गैस की मांग इस सप्ताह 91.4 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन से बढ़कर अगले सप्ताह 92.3 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन हो जाएगी।
- मौसम विज्ञानियों ने अनुमान लगाया है कि निचले 48 राज्यों में मौसम 18 मई तक सामान्य से अधिक गर्म रहेगा।
- टेक्सास में फ्रीपोर्ट एलएनजी के संयंत्र की सेवा में धीमी रिकवरी के कारण सात बड़े अमेरिकी एलएनजी निर्यात संयंत्रों में गैस का प्रवाह अप्रैल में 11.9 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन के औसत से बढ़कर मई में अब तक 12.2 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन हो गया है। इसकी तुलना में दिसंबर में 14.7 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन रिकॉर्ड मासिक प्रवाह हुआ था।
- पवन ऊर्जा उत्पादन इस वसंत में बढ़ रहा है और अगले 15 दिनों में अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे नेचुरल गैस के बढ़ते उपयोग की भरपाई हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा उत्पादन ने साल-दर-साल बढ़ोतरी हुई है। इससे गैस की मांग में कमी आ सकती है।

एमसीएक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

नाइमेक्स में नेचुरल गैस की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

मई 2024 में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतें दोनों दिशाओं में कारोबार कर सकती है, जहां कीमतों को 145 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 195 के करीब देखा जा रहा है।

प्रतिभूति

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A/Wing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जॉबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपालिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉर्पोरेट नेशनल कर्मांडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कर्मांडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कर्मांडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिपॉजिटरी के रूप में एसएमआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिजिस्टर्ड एग्रीमेंट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिजिस्टर्ड एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीमेंट द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कर्मांडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिजिस्टर्ड एग्रीमेंटों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को सुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कर्मांडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिलचस्पता: यह रिजिस्टर्ड रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट समूह/गैर-पब्लिक उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कनेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कनेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरिक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरिक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कर्मांडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कर्मांडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कर्मांडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।